



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2003/माघ 18, 1924

No. 45]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2003/MAGHA 18, 1924

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2003

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशेष प्रतिभूति, 2015 (अहस्तांतरणीय) का निर्गम।

एफ. सं. 4(1)/डब्ल्यू एंड एम/2003.— भारत सरकार एतद्वारा 7 फरवरी, 2003 को राष्ट्रीयकृत बैंकों की विशेष प्रतिभूति, 2015 (अहस्तांतरणीय) (जिसे इसके बाद संक्षिप्त रूप में “विशेष प्रतिभूति” कहा जाएगा) का निर्गम अधिसूचित करती है।

1. विशेष प्रतिभूति के लिए अभिदान करने की पात्रता और अभिदान की सीमा

केवल इंडियन बैंक विशेष प्रतिभूति के लिए अभिदान करने का पात्र होगा और प्रतिभूति के लिए उसका अभिदान 770 करोड़ रूपए अर्थात्, भारत सरकार द्वारा उसके पूंजीगत आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए आबंटित की गई धनराशि तक सीमित होगा। इंडियन बैंक के अलावा किसी बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य किसी निकाय सहित कोई भी अन्य व्यक्ति प्रतिभूति के लिए अभिदान करने का पात्र नहीं होगा।

2. निर्गम का मूल्य तथा तारीख

- (i) विशेष प्रतिभूति का निर्गम इंडियन बैंक द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार संबद्ध धनराशि के सममूल्य पर किया जायेगा।
- (ii) विशेष प्रतिभूति के निर्गम की तारीख इंडियन बैंक से अभिदान प्राप्त करने की तारीख अर्थात् 7 फरवरी, 2003 होगी।

3. प्रतिभूति का रूप

विशेष प्रतिभूति का निर्गम लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट मुम्बई में निवेशकर्ता बैंक के सहायक सामान्य बही खाते में जमा धारित “स्टाक” के रूप में किया जाएगा।

4. वापसी-अदायगी

विशेष प्रतिभूति की वापसी-अदायगी छः समान वार्षिक किस्तों में निम्नलिखित तारीखों पर की जाएगी:

किस्त संख्या	तारीख
1.	7 फरवरी, 2010
2.	7 फरवरी, 2011
3.	7 फरवरी, 2012
4.	7 फरवरी, 2013
5.	7 फरवरी, 2014
6.	7 फरवरी, 2015

5. ब्याज

- (i) विशेष प्रतिभूति पर ब्याज निर्गम तिथि अर्थात् 7 फरवरी, 2003 से उपार्जित होगा तथा इसका भुगतान प्रति अर्द्धवार्षिक 7 अगस्त तथा 7 फरवरी को किया जाएगा।
- (ii) विशेष प्रतिभूति पर 7 फरवरी, 2003 से 6 फरवरी, 2004 की वर्षावधि हेतु भुगतान की जाने वाली प्रति वर्ष ब्याज दर 8.25 प्रतिशत होगी। तत्पश्चात्, विशेष प्रतिभूति पर प्रत्येक वर्ष देय ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष 7 फरवरी को वार्षिक आधार पर पुनः निर्धारित की जाएगी और उसे उस समय की मौजूदा बैंक दर तथा 200 आधार अंकों पर निर्धारित किया जाएगा।

6. हस्तांतरणीयता और रूपांतरण

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी और किसी अन्य रूप में प्रतिभूति का रूपांतरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. सांविधिक उपबंध

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी इस अधिसूचना के तहत व्यवस्था नहीं की गई है, विशेष प्रतिभूति का नियंत्रण लोक ऋण अधिनियम, 1944 और इसके तहत बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 1946 द्वारा किया जाएगा।

8. कर नियमों की प्रयोज्यता

विशेष प्रतिभूति में निवेश का मूल्य तथा उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

9. विशेष प्रतिभूतियों में निवेश की पात्रता

निवेशकर्ता बैंक द्वारा विशेष प्रतिभूति में किया गया निवेश पात्र निवेश नहीं माना जाएगा जो उन्हें निवेशकर्ता बैंकों पर लागू किसी सांविधिक उपबंध अथवा निदेश के अनुसरण में सरकारी प्रतिभूतियों में करना अपेक्षित होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

धीरेंद्र स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2003

Issue of Nationalized Banks' (Non-transferable)
Special Security, 2015

F. No. 4(1)/W&M/2003.— Government of India hereby notifies the issue of Nationalised Banks' (non transferable) Special Security, 2015 (hereinafter briefly described as "the Special Security") on 7th February, 2003.

1. Eligibility for making subscription to the special security and limit of subscription.

Only Indian Bank shall be eligible to subscribe to the special security and its subscription to the special security shall be limited to Rs. 770 crores i.e. to the extent of the amount allocated by the Government of India for strengthening its capital base. No other person including any bank, company, corporation or any other body except the Indian Bank shall be eligible to subscribe to the security.

2. Price and date of issue

- (i) The Special Security will be issued at par for the amount as per the application made by the Indian Bank.
- (ii) The date of issue of the special security will be the date of receipt of subscription from Indian Bank i.e. 7th February, 2003.

3. Form of security

The special security will be issued in the form of 'Stock' to be held at credit of the investing bank's subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai.

4. Repayment

The special security shall be repayable in six equal annual instalments on the following dates:

<u>Instalment No.</u>	<u>Date</u>
1	7 th February, 2010
2	7 th February, 2011
3	7 th February, 2012
4	7 th February, 2013
5	7 th February, 2014
6	7 th February, 2015

5. Interest

- (i) Interest on the Special Security will accrue from the date of issue, i.e. February 7, 2003 and will be payable every half year on August 7 and February 7.
- (ii) **The rate of interest payable on the Special Security for the year February 7, 2003 to February 6, 2004 shall be 8.25 per cent per annum.** Thereafter, the rate of interest per annum payable on the Special Security shall be reset annually on February 7 every year and be fixed at the prevailing Bank Rate on that date plus 200 basis points.

6. Transferability and Conversion

The Special Security shall not be transferable and conversion of the security in any other form shall not be permitted.

7. Statutory Provisions

With respect to any such matter which has not been provided under this notification the Special Security shall be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

8. Applicability of Tax Laws.

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

9. Eligibility of investment in the Special Securities.

The investment in the special securities by the investing bank would not be considered as an eligible investment, which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory provision or direction applicable to the investing banks.

By Order of the President of India
D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)